



Dated: 11/11/2021

To,

The Corporate Relationship Manager
Department of Corporate Services
BSE Ltd.
P. J. Towers, Dalal Street,
Mumbai-400001

Dear Sir,

Scrip Code: 534060

Subject: Submission of copies of Newspaper Publishing Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30/09/2021

With reference to the above captioned matter, Please find the attached copies of Publications dated 11th November, 2021 in the "Jansatta" and "Financial Express" w.r.t. the publishing of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th September, 2021.

Kindly take the same on records.

Thanking you,
Yours faithfully,
For PMC Fincorp Limited

Ms. Chetna Sajwan
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No.: ACS 60209

Encl.: As above

IMPORTANT
 Advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

PUBLIC NOTICE
 General public is hereby informed that due to certain unavoidable circumstances, the proposed Public Auction of pledged ornaments - NPA accounts by our client M/s. Muthoot Finance Ltd. scheduled for 15th, 16th, 20th & 24th November 2021 has been postponed and is now re-scheduled for 1st, 2nd, 13th & 16th December 2021 respectively. The place and time of Public Auction shall remain the same, as already notified to the concerned Borrowers. In case of any clarification, the interested persons may contact the concerned Branch office of our client.
Kohli & Sobti Advocates,
 A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024
 Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact Email ID: auctiondelhi@muthootgroup.com or Call at 7834886454, 7994452461.

PUBLIC NOTICE
 General public is hereby informed that due to certain unavoidable circumstances, the proposed Public Auction of pledged ornaments - NPA accounts by our client M/s. Muthoot Finance Ltd. scheduled for 15th, 16th, 20th & 24th November 2021 has been postponed and is now re-scheduled for 1st, 2nd, 13th & 16th December 2021 respectively. The place and time of Public Auction shall remain the same, as already notified to the concerned Borrowers. In case of any clarification, the interested persons may contact the concerned Branch office of our client.
Kohli & Sobti Advocates,
 A 59A, First Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi - 110024
 Note: Customers can release their pledged ornaments before the scheduled auction date, against payment of dues of our client. Customer can also contact Email ID: auctiondelhi@muthootgroup.com or Call at 7834886454, 7994452461.

KUWER INDUSTRIES LIMITED
 CIN: L74899DL1993PLC05627
 Registered office: D-1004, First Floor, New Friends Colony, New Delhi-110025
 Email ID: investor.kuwer@gmail.com; Website: www.kuwer.com; Tel. No: 0120-2580088

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2021

Sr. No.	Particulars	Quarter ended on		Half Year ended on	
		30.09.2021	30.09.2020	31.03.2021	31.03.2020
1	Total Income from Operations	1544.07	5680.03	1752.72	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-24.91	26.36	15.56	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-24.91	26.36	15.56	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-24.35	39.30	15.28	
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	-24.35	37.48	15.28	
6	Equity Share Capital (Rs. 10 per share)	907.61	907.61	907.61	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	701.17	771.71	806.55	
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each)				
	1. Basic	(0.27)	0.41	0.17	
	2. Diluted	(0.27)	0.41	0.17	

Note:
 a) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) at mentioned URL: <https://www.bseindia.com/xml-data/corpling/AttachLive/5527880-26714792-8214-da3e384150e.pdf>
 b) The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their respective meeting held on 10.11.2021.
For Kuwer Industries Limited
 Sd/-
 Jagdish Chandra
 (Company Secretary)
 Place: New Delhi
 Date: 10.11.2021

BCC FUBA INDIA LIMITED
 Regd. Office: 4 K.M. Searghat Road, Nagargh-174101, Distt. Solan (H.P.)
 CIN: L51395HP1985PLC012209, Tel.: Tel: 9218423157, Website: www.bccfuba.com

Extract of Un-Audited Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2021

S. No.	Particulars	Quarter ended		Half Year ended	
		30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020
1	Total Income from Operations	599.07	1,175.06	370.84	4,461.34
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	17.94	43.82	21.90	54.26
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	17.94	43.82	21.90	59.01
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	17.94	43.82	21.90	59.01
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income(after tax)	17.94	43.82	21.90	55.17
6	Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	1,531.01	1,531.01	1,531.01	1,531.01
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	-
8	Earning per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
	Basic (In Rs.)	0.12	0.29	0.14	0.36
	Diluted (In Rs.)	0.12	0.29	0.14	0.36

Note:
 1 The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the year ended 30th September, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Results is available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and Company's website www.bccfuba.com
 2 There are no extraordinary items during the current quarter and half year ended 30th September, 2021.
 3 The figures of the previous year/quarter have been regrouped/rearranged wherever necessary to correspond with the current year figures.
By the order of the Board
For BCC FUBA INDIA LTD.
 Sd/-
 Ashish Bhargava
 Director
 (DIN: 06783065)
 Place: New Delhi
 Date: 10/11/2021

UNIMODE OVERSEAS LIMITED
 CIN: L51909DL1993PLC04444
 Regd. Office: 304A/10178, 11th Floor, Ravinder Plaza, Abdul Aziz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005
 Email ID: unimodeoverseaslimited@gmail.com; Website: www.unimodeoverseas.in

Un-Audited Financial Results for the Quarter 30 September 2021

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	
		30-Sep-21	31-Mar-21	30-Sep-20	31-Mar-21
1	Total income from operations (net)	-	-	-	0.89
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or Extraordinary items)	-0.20	0.44	-0.22	-0.12
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	-0.20	0.44	-0.22	-0.12
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	-0.20	0.44	-0.22	-0.12
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	-0.20	0.44	-0.22	-0.12
6	Paid-up Equity Share Capital (Face value Rs. 10/- each)	5.01	5.01	5.01	5.01
7	Other Equity	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operation)				
	Basic:	-0.4	-0.85	-0.44	-0.24
	Diluted:	-0.4	-0.85	-0.44	-0.24

Note:
 1 The above results after being reviewed by the Audit Committee have been taken on record by the Board at its Meeting held on 10th November 2021.
 2 The previous periods figures has been regrouped and reclassified wherever necessary.
 3 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and Companies Website i.e. www.unimodeoverseas.in
By order of the Board
For Unimode Overseas Limited
 Sd/-
 Sanjeev Pahwa
 Director
 DIN: 02876785
 Place: New Delhi
 Date: 10.11.2021

PMC FINCORP LIMITED
 CIN: L27100UP1985PLC006998
 Regd Office:- B-10 VIP Colony, Civil Lines, Rampur UP-244901
 Corp Office:- 14/5, Old Rajinder Nagar, New Delhi-110069
 Ph: 011-4245845 Email:- princor@pmc.in website: www.pmfincorp.in

Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and Half Year ended 30th September, 2021

Particulars	Quarter ended		Half Year ended	
	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.09.2020
Total Income from Operation (Net)	147.94	81.23	85.30	229.17
Net Profit/(Loss) from the ordinary activities after tax	115.50	45.78	39.31	161.29
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	115.50	45.78	39.31	161.29
Total Comprehensive Income for the period (Comprising of Profits and other Comprehensive Income)	193.26	41.34	42.20	234.61
Equity Share Capital	5090.61	5090.61	5090.61	5090.61
Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance sheet of previous year)	2317.60	2125.09	1969.40	2317.60
Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 1/- each)				
Basic:	0.04	0.01	0.01	0.05
Diluted:	0.04	0.01	0.01	0.05
Earning Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 1/- each)				
Basic:	0.04	0.01	0.01	0.05
Diluted:	0.04	0.01	0.01	0.05

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly & Half Year ended 30.09.2021 Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the Quarterly and Half Year ended Financial Results are available with Stock Exchange website www.bseindia.com and on the Company's website www.pmfincorp.in. The Detailed Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30.09.2021 have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meeting held on 10.11.2021. The figures of the previous period/year have been regrouped/ recast, wherever considered necessary, to conform to current year classification.
For PMC FINCORP LIMITED
 Sd/-
 RAJAKUMAR MOON
 Director
 Place: New Delhi
 Date: 10.11.2021

Form No. INC-26
 (Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT - REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI
 In the matter of Section 13(4) of the Companies Act, 2013 and Rule 30(5)(a) of the Companies (Incorporation) Rules, 2014, as amended.
AND
 In the matter of Musetta Builders & Developers Private Limited (CIN: UAS200DL2007PT160054) having its registered office at Kharsa No. 382, 2' Floor, 100 Feet Road, M.G. Road, Village Ghatori, New Delhi-110030.
Applicant/ Petitioner
 Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make an application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the Special Resolution passed at the Extra-ordinary General Meeting held on 2nd November, 2021 to enable the Company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Haryana".
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the Company is invited to file a written objection to the Registrar of Companies, Northern Region, New Delhi, at the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Registrar, Northern Region, Ministry of Corporate Affairs at B-2 Wing, 2' Floor, Pt. Deendayal Aiyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003 within 14 (fourteen) days of the date of publication of this Notice with a copy to the Applicant Company at its Registered Office at the address mentioned above.
For Musetta Builders & Developers Private Limited
 Sd/-
 Ramesh Kumar
 Director
 DIN: 09198979

PAWANSHUT HOLDINGS LIMITED
 Registered Office: 415, USHA KIRAN BUILDING, COMMERCIAL COMPLEX, AZAPUR, NEW DELHI 110033
 Website: www.pawanshutholdings.com
 Email: pawanshutholding@gmail.com
 CIN: L5929DL1984PLC019506

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2021

S. No.	Particulars	Amount in Rupees	
		Financial Year Ended 31.03.2021	Financial Year Ended 31.03.2020
1	Total Income	61.28	65.70
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-23.80	-65.70
3	Net Profit/(loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-23.80	-65.70
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-23.80	-65.70
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	-23.80	-65.70
6	Paid up Equity Share Capital (Face value Rs. 10/-)	1,131.39	1,131.39
7	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (Basic and diluted (not annualised))	0.00	0.00

Note:
 1) The above results were taken on record by the Board of Directors in the Meeting held on 08.11.2021
 2) The above is an extract of the detailed format of result for financial year ended on 31st March, 2021 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the said results are available on the website of BSE at www.bseindia.com as well as on the company's website at www.pawanshutholdings.com
By order of the Board
For Pawanshut Holdings Limited
 Sd/-
 Ram Kishore Bani
 Managing Director
 DIN:05195912
 Place: Delhi
 Date: 09.11.2021

FOCUS INDUSTRIAL RESOURCES LIMITED
 Registered Office: 104 MUKHAND HOUSE, COMMERCIAL COMPLEX, AZAPUR, NEW DELHI 110033
 Website: www.focusindia.com
 CIN: L51319DL1985PLC021348

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2021

S. No.	Particulars	Amount in Rupees	
		Financial Year Ended 31.03.2021	Financial Year Ended 31.03.2020
1	Total Income	52.72	56.43
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	-39.97	-29.97
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-39.97	-29.97
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	-39.97	-29.97
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	-39.97	-29.97
6	Paid up equity share capital (Face value RS 10/-)	1,219.42	1,219.42
7	Earning Per Share (of Rs.10/- each) (Basic and diluted (not annualised))	0.00	0.00

Note:
 1) The above results were taken on record by the Board of Directors in the Meeting held on 08.11.2021
 2) The above is an extract of the detailed format of result for financial year ended on 31st March, 2021 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the said results are available on the website of BSE at www.bseindia.com as well as on the company's website at www.focusindia.com
By order of the Board
For Focus Industrial Resources Limited
 Sd/-
 Mamta Jindal
 Managing Director
 DIN:00085096
 Place: Delhi
 Date: 09.11.2021

BTTL
Bhilwara Technical Textiles Limited

UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30TH SEPTEMBER, 2021

Particulars	STANDALONE						CONSOLIDATED					
	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended		Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended	
	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	31.03.2021	30.09.2021	30.06.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	31.03.2021
Total Income from Operations	341.57	733.60	215.18	1,075.17	228.72	783.71	341.57	733.60	215.18	1,075.17	228.72	783.71
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	2.14	90.97	64.60	93.11	70.42	133.03	2.14	90.97	64.60	93.11	70.42	133.03
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	2.14	90.97	64.60	93.11	70.42	133.03	2.14	90.97	64.60	93.11	70.42	133.03
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items & Share of profit of Associates)	1.37	75.23	53.68	76.60	58.09	109.78	1.37	75.23	53.68	76.60	58.09	109.78
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	1.37	75.23	53.68	76.60	58.09	109.78	1.37	75.23	53.68	76.60	58.09	109.78
Equity Share Capital	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73	583.73
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in balance sheet of the previous year						1,328.06						13,279.04
Earning Per Share (of ₹ 1 each) (for continuing operation)												
Basic:	0.002	0.13	0.09	0.13	0.10	0.19	1.20	1.11	0.60	2.32	(0.40)	1.37
Diluted	0.002	0.13	0.09	0.13	0.10	0.19	1.20	1.11	0.60	2.32	(0.40)	1.37

Note:
 1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at its Meeting held on 10th November, 2021. The Statutory Auditors have reviewed the results for the quarter and half year ended September 30, 2021.
 2. This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, and other recognized accounting practices and policies to the extent applicable.
 3. The Company's activities constitute a single business segment.
 4. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial result for the quarter and half year ended September 30, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on the company's website (www.bttil.co.in)
 5. In relation to an Associate, the Power Purchase Agreement (PPA) with DISCOM, in respect of REC order dated 5th March 2019 @ ₹ 3.14 per Kwh, applicable to developers covered under the REC scheme for balance project life. Useful life is 25 years irrespective of the year of commissioning. As per said order, DISCOMs may execute PPAs for balance useful life of the project with project developers willing to sell power under REC mechanism to them. Since Company has exported power to DISCOM during the period, accordingly, Company has continued to recognise Revenue from Sale of Power of ₹ 94.46 Lakhs (Previous year: ₹196.19 Lakhs) @ ₹ 2.00 per Kwh with intention to indicate rate of @ ₹ 3.14 per Kwh as per said order.
 6. The figures of the previous period / year have been regrouped / recast wherever considered necessary.
By Order of the Board
For Bhilwara Technical Textiles Limited
 Sd/-
 Shekhar Agarwal
 Chairman & Managing Director and CEO
 DIN: 00066113
 Place: Noida (U.P.)
 Date: 10th November, 2021
 CIN: L18101RJ2007PLC025502
 Corporate Office: Bhilwara Towers, A-12, Sector - 1, Noida - 201 301 (U.P.)
 Phone: +91-120-4390300 (EPABX), Fax: +91-120-4277841, Website: www.bttil.co.in, E-mail: bttil.investor@bthilwara.com
 Registered Office: LNJ Nagar, Mord, Banswara, Rajasthan - 327001 Phone: +91-2961-231251-52, +91-2962-302400, Fax: +91-2961-231254

Form No. INC-26
 (Pursuant to Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014) BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI
 In the matter of sub-section (4) of Section 13 of the Companies Act, 2013 and sub-rule (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
 In the matter of BAAF ENGINEERS PRIVATE LIMITED (CIN: U5240DL1987PT078829) having its Registered Office at D-84 CITY APARTMENT, VASUNDHARA, DELHI-110086
Applicant Company / Petitioner
 NOTICE is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Central Government under Section 13(4) of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Saturday, 30th October, 2021 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh".
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company is invited to file a written objection to the Registrar of Companies, Northern Region, New Delhi, at the MCA-21 portal (